

श्री पियूष श्रीवास्तव, भारतीय राजदूत, बहरीन का भाषण

विश्व हिंदी दिवस - 2022

भारतीय राजदूतावास, बहरीन

[सोमवार; 10 जनवरी 2022; 0330 अपराह्न]

विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी बहरीन विश्वविद्यालयों में कार्यरत भारतीय प्राध्यापकगण,

इंडियन स्कूलों के प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाध्यापिकाएँ, अध्यापकगण और

विजेता छात्र - छात्राओं को मेरा नमस्कार एवं विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

1. आज विश्व हिंदी दिवस के दिन आप सबका एवं हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाध्यापिकाएँ, प्रतिनिधिगण, अध्यापकगण और विद्यार्थियों एवम भारतीय संघों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत गर्व और खुशी का आभास हो रहा है। इस साल इस आयोजन का एक विशेष महत्व है जबकि हम सभी भारत के ७५वे स्वतंत्रता दिवस की वर्षगाँठ 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' मना रहे हैं। हिंदी सहित भारत की अनेक भाषाओं का हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत तथा सामाजिक और आर्थिक विकास में बहुत ही विशेष योगदान रहा है।

2. हिंदी भारत की राजभाषा है। यह एक सम्मान की बात है कि हिंदी न केवल भारत की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है, अपितु विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा की सहजता इसे विशिष्ट बनाती है। हम दुनिया के किसी भी कोने में हों, जब हमारे कानों में कहीं से हिंदी के शब्द पड़ते हैं तो एक विशेष स्नेह का भाव हमारे मन में आता है।

3. हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। किसी भी देश की पहचान उसकी भाषा से होती है। भारतीय संस्कृति का सौंदर्य दर्शाने में हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि अभी भी बहुत से लोग हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने में दिलचस्पी रखते हैं और हिंदी भाषा के महत्व को आगे बढ़ा रहे हैं।

4. हिंदी 1948 से, UNESCO की Official Language है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2019 में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र समाचार की एक हिंदी वेबसाइट और वर्ष 2018 में हिंदी साप्ताहिक समाचार बुलेटिन का प्रसारण शुरू किया जो विश्व में हिंदी के महत्व को दर्शाता है।

5. मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हिंदी न केवल भारत, अपितु विश्व की अन्य देशों में भी बोली और समझी जाती है, जैसे कि Nepal, Bangladesh, Afghanistan, Sri Lanka, Maldives, Kenya, Uganda, Tanzania, Surinam, Guyana, Trinidad & Tobago, Fiji और Mauritius. World Hindi Secretariat, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री Shri Narendra

Modiji ने H.E. Sir Anirudh Jagannath, Mauritius के तत्कालीन प्रधानमंत्री की उपस्थिति में 2015 में Mauritius में किया, इस बात का प्रतीक है।

6. जैसा की आप सभी जानते होंगे, हमारे कई Bahraini मित्र भी हिंदी भाषा का ज्ञान रखते हैं, उनमें से एक का video हम सभी लोग आज के कार्यक्रम में सुनेंगे।

7. हिंदी भाषा के संवर्धन में हिंदी-शिक्षण एक आधार-स्तंभ है और देश-विदेश में हिंदी-शिक्षण के क्षेत्र में नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं। मैं सभी इंडियन स्कूल के प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने हिंदी भाषा में तरह-तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया और मैं सभी उपस्थित छात्रों की कृतियाँ सुनने का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे और भी अच्छा लगता कि हम सभी प्रतिभागियों को यहाँ बुलाते परन्तु कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए यह संभव न हो सका। परन्तु मुझे खुशी है कि आप सभी हमसे वर्चुअली जुड़ पाए। मैं सभी प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। आप सबका योगदान हिंदी भाषा के लिए सराहनीय है।

मित्रों,

8. इस मौके पर मैं आपको यह जानकारी भी देना चाहता हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता पखवाड़ा 1 जनवरी से 15 जनवरी 2022 तक मनाया जा रहा है। महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था।

9. मैं आप सभी को और आपके माध्यम से हमारे सभी Bahrain में स्थित भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को प्रवासी भारतीय दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ।

10. एक बार पुनः विजेता छात्र, छात्राओं को बधाई देते हुए, मैं आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ और आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

धन्यवाद !